

-:प्रेस नोट दिनांक 28.03.2021:-

थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

थाना शीशगढ़ #bareillypolice द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मय 60 टुकड़े केविल व तार काटने के औजार एवं वाहन सं0 UP25BT1864 बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी महोदय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में थाना शीशगढ़ पुलिस को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि बरेली बस अड्डे से होकर दो व्यक्ति छोटा हाथी वाहन सं0 UP25BT1864 से चोरी का माल केविल लेकर कहीं बेचने जा रहे हैं यदि जल्दी की जाये तो दोनो व्यक्ति एवं चोरी का माल से भरा छोटा हाथी पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहनो की चैकिंग शुरू की गयी तो कुछ देर बाद बहेड़ी रोड की तरफ से आता हुआ एक छोटा हाथी वाहन सं0 UP25BT1864 दिखायी दिया जिसे चेक किया गया तो उसमे 60 टुकड़े केविल CMI INDIA IRS -TC 305 SEP 9D No. 1501 मार्का व तार काटने के औजार बरामद हुए जिसकी कुल कीमत लगभग 50 हजार रुपये है तथा गाड़ी चालक भानू प्रताप पुत्र मोहन स्वरूप व उसका साथी सूरज पुत्र रतनदास नि0 गण वार्ड नं0 6 वसंत बिहार कालोनी थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली को मय वाहन सहित दिनांक 28.03.2021 समय 03.25 बजे गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त 1.भानू प्रताप पुत्र मोहन स्वरूप 2.सूरज पुत्र रतनदास नि0 गण वार्ड नं0 6 वसंत बिहार कालोनी थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली के विरुद्ध मु0अ0सं0 84/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.भानू प्रताप पुत्र मोहन स्वरूप नि0 वार्ड नं0 6 वसंत बिहार कालौनी थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली ।
2. सूरज पुत्र रतन दासस नि0 वार्ड नं0 6 वसंत बिहार कालौनी थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 84/2021 धारा 379/411 भादवि थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.60 टुकड़े केविल CMI INDIA IRS - TC 305 SEP 9D No. 1501 व तार काटने के औजार
2. छोटा हाथी वाहन सं0 UP25BT1864

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री योगेश कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 श्री गौरव त्यागी थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
3. का0 1862 अमित शर्मा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
4. का0 1886 मो0 यामीन थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

**प्रभारी निरीक्षक
थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।**